



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2018/ज्येष्ठ 17, 1940

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2018/JYAISTHA 17, 1940

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 530(अ).—राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन: अनुसूची में उल्लिखित पदों के पदधारी को जिन्हें इन विनियमों के प्रारम्भ से पहले उक्त पदों पर नियुक्त किए गए थे, उन्हें इन विनियमों के आधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और इन विनियमों के प्रारम्भ से पहले उनके द्वारा संबंधित पदों पर की गई नियमित निरंतर सेवा को अगली उच्चता श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता पर विचार किया जाएगा।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि: भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	19* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	स्तर 04 (25500-81100 रुपये)	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या उपदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य।	लागू नहीं होता

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
--	--	--	--	--	---	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 02 में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 - प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से, जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे - 1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग - अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

		<p>पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 02, 19900-63200 रुपये में या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित की सेवा की हो;</p> <p>टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. आशुलिपिक श्रेणी डी	07* (2018) *(कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 04 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) कुशल परीक्षण	लागू नहीं होता

	पर परिवर्तन किया जा सकता है)।				<p>उपदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>मानदंड - श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट</p> <p>अनुलिपिकरण: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)</p>	
--	-------------------------------	--	--	--	---	---	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्यापन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर</p>	लागू नहीं होता	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष उप रजिस्ट्रार, 	लागू नहीं होता

	<p>भरी जा सकेगी</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और</p> <p>जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता विहित हैं।</p>		<p>राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य</p> <p>3. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. निम्न श्रेणी लिपिक	<p>22*</p> <p>(2018)</p> <p>*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय</p>	<p>स्तर 02 (19900-63200 रुपये)</p>	अचयन	<p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या उपदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर टंकक गति अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट</p> <p>प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट</p>	<p>हाँ, स्तम्भ (10) में उपदर्शित सीमा तक</p>

					लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
--	--	--	--	--	---	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	<p>(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर -01 (18000-56900 रु.) में समूह ग के ऐसे कर्मचारिवृंद में से भरी जाएगी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उक्त श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 : परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अजा अथवा अजजा के लिए 50 वर्ष)</p> <p>टिप्पण 2 : यदि परीक्षा में खंड (2) के तहत अर्हता प्राप्त ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्त स्थानों की अपेक्षा अधिक है तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हताप्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।</p> <p>टिप्पण 3 : 5 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह ग के कर्मचारियों द्वारा ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिन्होंने स्तर-01 (18000-56900 रु.) वेतन मैट्रिक्स में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p>	स्तंभ (10) में किए गए उल्लेख के अनुसार	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –</p> <p>1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य</p> <p>3. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य</p> <p>2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –</p> <p>1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

						3. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	04* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसूचित्वीय	स्तर 02 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या उपदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो (iii) मोटर मशीनीकरण का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की मामूली छोटी कमी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) (iv) मोटर कार चलाने का 3 वर्ष का अनुभव हो वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक की 3 वर्ष की सेवा टिप्पण -2: अनुभव संबंधी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिक के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	<p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन :</p> <p>राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-01(18000-56900 रु.) में ऐसे नियमित सवारहरकारा (समूह ग) और समूह ग कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलाने संबंधी क्षमता का निर्धारण करने के निमित्त ड्राइविंग परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने हेतु विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-01(18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर अथवा नियमित समूह ग के कर्मचारियों में से सवारहरकारा का पद धारण करने वाले पदाधिकारियों जिन्होंने कॉलम (7) में उल्लिखित अर्हताओं को पूरा कर लिया हो।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. कनिष्ठ पुस्तकालय परिचारक	01* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	स्तर 02 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या उपदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता

					<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति या आमेसन :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 01 (18000-56900 रुपये) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या समतुल्य; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –</p> <p>1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. बहु कर्मचारिवृंद	47* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	स्तर 01 (18000- 56900 रुपये)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग — अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग — सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के स्तर का कोई अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए - 208/एन. सी. डी. आर. सी./2005]

अजय कुमार कुहार, रजिस्ट्रार

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2018

G.S.R. 530(E).—In exercise of the powers conferred by section 30A of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the National Consumer Disputes Redressal Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group “C” posts) Recruitment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. — (1) The incumbents of the posts mentioned in the Schedule who were appointed to the said posts before the commencement of these regulations on regular basis shall be deemed to have been appointed under these regulations and the regular continuous service rendered by them in the respective posts before the commencement of these regulations shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Number of post, classification, level in the pay matrix — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age — limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to relax. — Where the National Consumer Disputes Redressal Commission is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Saving. — Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Upper Division Clerk.	19* (2018) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group ‘C’, non-Ministerial.	Level-04 (Rs.25500-81100/-)	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years and forty five years in the case of candidates belonging to the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	Graduation or equivalent from a recognised University.

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.			
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable	Two years	40% by Promotion failing which by deputation. 60% by Direct Recruit	<p>Promotion: Lower Division Clerk in the level-02 in the pay matrix with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January of 2017 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Seventh Central pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in level-02 Rs. 19900-63200/- in the pay matrix or equivalent grade in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January '2017, (date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one level with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post for which that level in the pay matrix is the normal replacement level without any up gradation.</p>			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.			
(12)			(13)			
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; 2. Deputy Registrar — Member; 3. Any Officer of the rank of Administrative Officer from Central Government Office — Member.			Not applicable.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade 'D'	07* (2018) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-04 (Rs.25500-81100/-)	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants up to forty years and forty five years in the case of candidates belong to the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass from a recognised Board or university; (ii) Skill Test Norms: – Dictation: Ten minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription: Fifty minutes (English) sixty five minutes (Hindi) on computer.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)
<u>By Direct recruitment</u> Note: The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a deputation of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government, — (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; (3) An officer of the rank of Administrative Officer from the Central Government Office — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lower Division Clerk.	22* (2018) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-02 (Rs.19900-63200/-)	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years and forty five years in the case of candidates belong to the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age -limit shall be the last date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass from a recognised Board or university; (ii) A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on Computer. Thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word.	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years.
(10)		(11)
(i). 85% by direct recruitment; (ii). 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group ‘C’ staff in the level-01 (Rs.18000-56900/-) in the pay matrix and who possess 12th class pass or equivalent from a		As stated in column (10).

recognized Board or University and have rendered three years regular service in the said grade, on the basis of departmental qualifying examination.

Note 1: The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes).

Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(iii) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the level-01 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix .

(12)						(13)	
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission, — Member; (3) An officer of the rank of Administrative Officer from the Central Government Office — Member. 2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Member; (3) An officer of the rank of Administrative Officer from the Central Government Office — Member.						Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	4 * (2018) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', non-Ministerial.	Level-02 (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (relaxable for Government servants upto forty years and forty five years in the case of candidates belong to the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) 10th Standard pass or equivalent from a recognised Board; (ii) possession of a valid driving license for driving motor car; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); and (iii) experience of driving a motor car for three years. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	Deputation or absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in the level-01 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix. in the National Consumer Disputes Redressal Commission who possess valid driving license for driving motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Member; (3) An officer of the rank of	Not applicable.

		<p>which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in the level-01 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Administrative Officer from the Central Government Office — Member.	
--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Junior Library Attendant	01* (2018) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Level-02 (Rs.19900-63200/-)	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years and forty-five years in the case of candidates belonging to the categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the National Consumer Disputes Redressal Commission. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass from a recognised Board or university;	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Deputation or absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation or absorption: Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories:—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-01 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experiences as specified for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed</p>

	three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Member; (3) An officer of the rank of Administrative Officer from the Central Government Office — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Multi Tasking Staff.	47* (2018) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Level-01 (Rs.18000-56900/-)	Not applicable.	Between 18 to 25 years of age. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing the prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : — (1) Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Chairman; (2) Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission — Member; (3) An officer of the rank of Administrative Officer from the Central Government Office — Member.	Not applicable.

[F. No. A-208/NCDRC/2005]

AJAY KUMAR KUCHAR, Registrar